



Extraordinary Together

July 31, 2023

The Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

BSE Scrip Code Equity: 505537

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051

NSE Symbol: ZEEL EQ

Dear Sirs,

Sub: Newspaper publication pertaining to transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Pursuant to Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisement published on July 29, 2023 in Business Standard and Navashakti with respect to transfer of equity shares to the Investor Education and Protection Fund.

Request you to take the same on your record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Zee Entertainment Enterprises Limited

Ashish Agarwal
Company Secretary
Membership No F6669

Encl: As above

Zee Entertainment Enterprises Limited

Regd. Office : 18th Floor, A-Wing, Marathon Futurex, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, India
P. +91 22 7106 1234 | F. +91 22 2300 2107 | CIN : L92132MH1982PLC028767 | www.zee.com

Name of the Company: Ovobel Foods Ltd.
Address: No 45 old No 32/1, 2nd Cross, Age Abbas Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400052, Karnataka 560022

Notice is hereby given that the Share Certificate No. and distinctive nos as mentioned below for 4800 shares in respect of FOL5943, 0002927 Registered in the name of 1) Pankaj Rajiv Manek 2) Sudhir Rajiv Manek is/are reported to be lost and the company has received application for issue of duplicate share certificate(s). If no objection from any interested person is received by the company's registrars Maharashtra Dalmatic Pvt. Ltd., 25, R.V. Kulkarni Road, Mangalore Lane, 1st Floor, Kolkata 700001, within 15 days from the publication hereof the company will proceed to issue duplicate share Certificate(s) to the applicant(s).

Certificate nos.	Distinctive Nos.
58324	8456101 to 8456200
58325	8456301 to 8456400
58328	8456501 to 8456600
58330	8456701 to 8456800
58332	8456901 to 8457000
58334	8457101 to 8457200
58336	8457301 to 8457400
58338	8457501 to 8457600
58340	8457701 to 8457800
58342	8457901 to 8458000
78344	10458101 to 10458200
78345	10458301 to 10458400
78346	10458501 to 10458600
78347	10458701 to 10458800
78348	10458901 to 10459000
78349	10459101 to 10459200
78351	10459301 to 10459400
78352	10459501 to 10459600
78353	10459701 to 10459800
78354	10459901 to 10460000
78355	10460101 to 10460200
78356	10460301 to 10460400
78357	10460501 to 10460600
78358	10460701 to 10460800
78359	10460901 to 10461000
78360	10461101 to 10461200
78361	10461301 to 10461400
78362	10461501 to 10461600
78363	10461701 to 10461800
78364	10461901 to 10462000
78365	10462101 to 10462200
78366	10462301 to 10462400
78367	10462501 to 10462600
78368	10462701 to 10462800
78369	10462901 to 10463000
78441	10468001 to 10468100
78442	10468201 to 10468300
78443	10468401 to 10468500
78444	10468601 to 10468700
78445	10468801 to 10468900
78446	10469101 to 10469200
78447	10469301 to 10469400
78448	10469501 to 10469600
78449	10469701 to 10469800
78450	10469901 to 10470000
78451	10470101 to 10470200
78452	10470301 to 10470400
78453	10470501 to 10470600
78454	10470701 to 10470800
78455	10470901 to 10471000
78456	10471101 to 10471200
78457	10471301 to 10471400

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED
 Regd. Office: 18th Floor, 'A' Wing, Marathon Futurax, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013.
 Tel: -91-22-71061234 Fax: -91-22-23092107
 CIN: L92132MH1982PLC028767 Website: www.zee.com

NOTICE
Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules), as amended, the Company is required to transfer those Equity Shares of the Company in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years to the designated account of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF Account). In pursuance to the said requirement, the Company has communicated to the shareholders individually (at their Registered Address(es) whose shares are liable to be transferred to IEPF Account for taking appropriate action. The Company has also uploaded details of such shareholders on its website at www.zee.com.

Accordingly, we request all such Equity shareholders to make an application to the Company/Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. Link Intime India Private Limited (Registrar) latest by August 31, 2023, claiming any unpaid/unclaimed dividend from the year ended March 2016. It may be noted that, if no response or claim is received by the Company/Registrar by August 31, 2023, the Company will be constrained to transfer such equity shares to the designated account of IEPF Authority without any further notice, by following the due process prescribed in the IEPF Rules.

The concerned shareholder(s) may note that both the unclaimed dividend and the equity shares transferred to IEPF Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by them from the IEPF Authority by following the procedure prescribed in the Rules. Shareholders may note that no claim shall be made against the Company in respect of any unclaimed/unpaid dividend amount and/or equity shares once they are transferred to IEPF Authority pursuant to the IEPF Rules.

In case, the shareholder(s) holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, may note that upon transfer of shares to IEPF Authority, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand cancelled and be deemed non-negotiable. In the case of shares held in Demat Form, to the extent of shares liable to be transferred, shall be debited from the shareholders' demat account.

In case, the shareholders have any queries on the subject matter and the IEPF Rules, they may contact the Company Secretary via email on shareservice@zee.com or Company's Registrar and Transfer Agent, M/s Link Intime India Pvt Ltd, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400083, Tel: 022-49186000. Email: ml.helpdesk@linkintime.co.in

For Zee Entertainment Enterprises Limited
 Place: Mumbai Ashish Agarwal
 Date: July 28, 2023 Company Secretary
 FCS 6669

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2023

PARTICULARS	Standalone		Consolidated			
	3 Months ended 30 June, 2023 (Unaudited) Rs. Crores	Year ended 31 Mar, 2023 (Audited) Rs. Crores	3 Months ended 30 June, 2022 (Unaudited) Rs. Crores	3 Months ended 30 June, 2023 (Unaudited) Rs. Crores	Year ended 31 Mar, 2022 (Audited) Rs. Crores	3 Months ended 30 June, 2022 (Unaudited) Rs. Crores
1. Total income	4,091.82	14,724.32	3,938.96	4,267.78	15,202.90	4,051.09
2. Net Profit before Exceptional Item and Tax	322.23	1,215.09	303.45	304.37	1,137.59	279.63
3. Net Profit before Tax	322.23	1,215.09	303.45	304.37	1,137.59	279.63
4. Net Profit after tax for the period	241.94	903.63	226.38	224.11	822.77	202.44
5. Net Profit after Tax and Non-Controlling Interest	241.94	903.63	226.38	222.31	822.70	202.77
6. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	1,415.05	611.65	318.51	1,397.42	538.92	294.45
7. Paid up Equity Share Capital (Face Value Re. 1)	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
8. Other Equity	11,124.75	11,124.75	10,513.10	11,047.28	11,047.28	10,498.74
9. Earnings per equity share for continued and discontinued operations (Basic & Diluted)	Rs. 2.85 #	Rs. 10.63	Rs. 2.66 #	Rs. 2.62 #	Rs. 9.68	Rs. 2.39 #

* As at March 31, 2023
 ** As at March 31, 2022
 # Not annualised

Note:
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Company's website www.exideindustries.com.

By order of the Board
 Subir Chakraborty
 Managing Director & Chief Executive Officer
 DIN : 00130664

Mumbai July 28, 2023

EXIDE
 India's No.1 Storage Battery Company
 CIN: L31402WB1947PLC014919
 Exide House, 59E Chowringhee Road, Kolkata 700 020 | www.exideindustries.com, e-mail : exideindustrieslimited@exide.co.in

360 ONE WAM LIMITED (Formerly known as IIFL Wealth Management Limited)
 CIN: L74140MH2008PLC177884
 Regd. Office: 360 ONE Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013.
 Tel: (91-22) 4876 5600 | Fax: (91-22) 4646 4706
 E-mail id: secretarial@360.one | Website: www.360.one

NOTICE OF 16TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting ("AGM") of 360 ONE WAM LIMITED ("Company") and formerly known as IIFL Wealth Management Limited will be held on Monday, August 21, 2023, at 3:00 p.m. (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), without physical presence of the members at a common venue, to transact the business(es) specified in the Notice convening the AGM ("AGM Notice") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations, 2015") read with General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and all other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") in this regard and Circular No. SEBI/IO/CFD/PO-2/P/ICR/2023/4 dated January 5, 2023 and all other applicable circulars issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") in this regard (collectively referred as "MCA and SEBI Circulars").

In accordance with the MCA and SEBI Circulars, the AGM Notice along with the Annual Report of the Company for the financial year 2022-23, is sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses were registered with the Company / Depositories. Members may note that the AGM Notice and aforesaid Annual Report shall also be available on the website of the Company i.e. www.360.one and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com. The dispatch of the AGM Notice through e-mails is completed on Friday, July 28, 2023.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, 2015, read with Secretarial Standards on General Meetings ("SS-2") issued by Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means on the business(es) specified in the AGM Notice through e-voting using the facility of CDSL. The voting rights of Member shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up share capital of the Company. Only the Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

All the Members are informed that:

- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form and whose names are recorded in the register of members or in register of beneficial owners maintained by Depositories, as on the cut-off date i.e. Monday, August 14, 2023, are eligible ("Eligible Members") to exercise their right to vote by remote e-voting system as well as e-voting during the AGM, on the business(es) specified in the AGM Notice.
- The remote e-voting shall commence on Thursday, August 17, 2023, at 9:00 a.m. (IST).
- The remote e-voting shall end on Sunday, August 20, 2023, at 5:00 p.m. (IST).
- The remote e-voting will not be allowed before or beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 p.m. (IST) on Sunday, August 20, 2023.
- Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same shall not be allowed to change subsequently.
- The manner of remote e-voting for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email address is provided in the AGM Notice.
- Members can attend and participate in the AGM through VC / OAVM facility only.
- E-voting during the AGM:
 - The Members can participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but will not be able to cast their vote again at the AGM.
 - The procedure for e-voting at the AGM is mentioned in the AGM Notice.
 - Only those Members, attending the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote at the AGM.

Any person who becomes Member of the Company after the AGM Notice is sent electronically by the Company and holds shares as on the cut-off date i.e. Monday, August 14, 2023, is requested to refer to the login method explained in the AGM Notice and may contact the Company at secretarial@360.one in case of any queries.

We encourage Members to support our commitment to environmental protection by choosing to receive the Company communication through e-mail. Accordingly, members are requested to register / update their e-mail addresses in the following manner:

- Members holding shares in dematerialized form, who have not registered / updated their e-mail addresses are requested to register / update their e-mail addresses with their respective Depository Participants; and
- Members holding shares in physical form are requested to register / update their e-mail addresses with Link Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company, by writing an e-mail at ml.helpdesk@linkintime.co.in.

Members are requested to intimate changes, if any, in their name, postal address, e-mail address, telephone / mobile numbers, bank account details, Permanent Account Number, nominations, power of attorney etc. to their Depository Participants in case the shares are held by them in dematerialized form and to Link Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company, in case the shares are held by them in physical form, in the manner specified in the AGM Notice.

In case of queries / grievances relating to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual for members at the HELP Section at the website of the CDSL, i.e. www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no: 1800 22 5533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL at A Wing, 25th Floor, Marathon Futurax, Malafali M Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or write an e-mail to the Company at secretarial@360.one.

For 360 ONE WAM LIMITED (Formerly known as IIFL Wealth Management Limited)
 Sd/-
 Rohit Bhasne
 Company Secretary
 ACS: 21499

Place: Mumbai
 Date: July 28, 2023

STAR Health Insurance
 The Health Insurance Specialist

STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE CO LTD
 Corp. Office: "Star Insurance Towers", No.3, New Tank Street, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034.
 Toll Free No.: 1 800 425 2255, Website: www.starhealth.in
 CIN: L66010TN2005PLC056649, Email: info@starhealth.in

STATEMENTS OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023 (₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Three Months ended		Year ended
		June 30, 2023 Unaudited	June 30, 2022 Unaudited	March 31, 2023 Audited
1	Total Income from Operations (Note 1)	2,94,663	2,46,366	12,95,247
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Item)	38,435	28,798	82,640
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Item)	38,435	28,798	82,640
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary Item)	28,785	21,324	61,859
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) (Note 2)	NA	NA	NA
6	Paid up Equity Capital	58,198	57,610	58,168
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-
8	Securities Premium Account	5,88,570	5,71,071	5,98,007
9	Net Worth	5,72,392	4,73,485	5,43,013
10	Paid Up Debt Capital	47,000	72,000	47,000
11	Debt Redemption Reserves	-	1,500	-
12	Earnings per share (face value of ₹10/- each)			
	1. Basic (in ₹)	4.95	3.70	10.70
	2. Diluted (in ₹)	4.83	3.59	10.41
13	Debt Equity Ratio (No. of times)	0.08	0.15	0.09
14	Debt Service Coverage Ratio (No. of times)	38.49	18.31	16.58
15	Interest Service Coverage Ratio (No. of times)	38.49	18.31	16.58

Notes:
 1. Total Income from Operations represents Gross Written Premium (GWP).
 2. The Indian Accounting Standards (IND AS) are currently not applicable to Insurance Companies in India.
 3. The above results for the quarter ended June 30, 2023 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on July 28, 2023 and the Joint Statutory Auditors of the Company have reviewed the same.
 4. The above is an extract of the detailed format of quarterly and year to date Financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015 as amended. The full format of quarterly and year to date Financial results are available on the website of Stock Exchanges (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) and the Company (www.starhealth.in).

Registration No. and Date of Registration with the IRDAI: 129/16.03.2006

For and on behalf of Board of Directors
 Sd/-
 Anand Roy
 Managing Director & Chief Executive Officer
 DIN: 08622445

Place: Chennai - 600 034
 Date: July 28, 2023

SHA1/2023-24/PR (FR FOR THE QTR ENDED 30TH JUNE 2023)/001 Insurance is the subject matter of solicitation. For more details on risk factors, terms and conditions please read the sales brochure carefully before concluding a sale. IRDAI clarifies to public that IRDAI or its officials do not involve in activities like sale of any kind of insurance or financial products nor invest premiums. IRDAI does not announce any bonus. Public receiving such phone calls are requested to lodge a police complaint along with details of phone call, number.

